

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 225 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 जून 2019 — ज्येष्ठ 24, शक 1941

आवास एवं पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 14 जून 2019

## अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-131/2008/32. — छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 64 की उपधारा (1) तथा धारा 65 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-131/2008/32, दिनांक 28-08-2018 में निम्नानुसार जोड़ा जाता है :-

1. उक्त अधिसूचना में उल्लेखित “अटल नगर” के नाम के आगे “नवा रायपुर” जोड़ा जाता है. अर्थात् अब इसे “नवा रायपुर अटल नगर” के नाम से जाना जायेगा.
2. उक्त विशेष क्षेत्र हेतु गठित “अटल नगर विकास प्राधिकरण,” अटल नगर, जिला रायपुर को अधिनियम की धारा 65 (1) के अंतर्गत “नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण” के नाम से जाना जायेगा.
3. कंपनी अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय क्रमांक 18 वर्ष 2013) के अंतर्गत गठित “अटल नगर स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड” के नाम के आगे “नवा रायपुर” जोड़ा जाए. अर्थात् अब इसे “नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड” के नाम से जाना जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.